



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 माघ 1936 (श0)
(सं0 पटना 206) पटना, बुधवार, 28 जनवरी 2015

सं0 08/आरोप-01-88/2014, सां0प्र0-16591

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

3 दिसम्बर 2014

श्री बाल्मिकी प्रसाद, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक-61/08, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, अररिया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितता बरतने सहित कतिपय अन्य आरोपों के कारण प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2762, दिनांक 09.03.2011 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी०) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी। मामले के जाँच पदाधिकारी विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक-473, दिनांक 15.06.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

2. जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री बाल्मिकी प्रसाद दिनांक 31.01.2010 को बार्धक्य सेवानिवृत्त हुए हैं। श्री प्रसाद के विरुद्ध गठित आरोप का मामला उनके उप विकास आयुक्त, अररिया पदस्थापन काल का है एवं सभी आरोप वर्ष 2004-05 में घटित है। अतः श्री प्रसाद के विरुद्ध लगाये गये आरोप विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किये जाने के पाँच वर्ष पूर्व घटित है जो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1893, दिनांक 14.06.2011 द्वारा निरूपित प्रावधान के अनुसार कालबाधित है।

3. वर्णित परिप्रेक्ष्य में मामले की समीक्षा की गयी एवं विधि विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में पाया गया कि श्री बाल्मिकी प्रसाद के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी०) के तहत कालबाधित है। अतः सम्यक् विचारोपरांत मामले को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी जाये।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 206-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>